



## नारीवादी नेतृत्व, आंदोलन निर्माण और अधिकार - हिन्दी 20-24 नवंबर, 2017 नई दिल्ली

नारीवादी नेतृत्व, पित्रसत्ता , आंदोलन निर्माण और अधिकार पर होनेवाला यह प्रशिक्षण पांच दिन तक हिंदी में चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। यह क्रिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित और संचालित किया जा रहा है।

यह चौथा वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नारीवादी नेतृत्व , पैरवी और सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठनात्मक शक्ति व आन्दोलन बढ़ाने की रणनीतियों को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है. यह कार्यशाला भारत की उन सभी गैर सरकारी संस्थाओं की महिला कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है जो मुख्य या मध्य-स्तर के नेतृत्व में कार्य करती हैं।

### प्रशिक्षण विषय

यह कार्यशाला विभिन्न मुद्दों को समझने के साथ साथ उन्हें पहचानने , उनमें जुड़ाव देखने और चुनौती देने के साथ सहभागियों को इन्हें महिला मानव अधिकार के मुद्दे के साथ जोड़ने में भी मदद करेगा | इस प्रशिक्षण में चर्चा किये जानेवाले मुद्दे :

- नेतृत्व
- नारीवादी नेतृत्व
- सत्ता
- पित्रसत्ता
- आन्दोलन
- जातिप्रथा व जेंडर
- नारीवाद
- महिला आन्दोलन

इस पूरे अध्ययन के दौरान नारीवादी कार्यकर्ता और नारीवाद से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकार व्यक्तियों द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समूह में बातचीत और काम करना, चर्चा, मुद्दों पर गहरी सोच बनाने जैसे विभिन्न प्रकार के अध्ययन के साथ फिल्मों का उपयोग भी किया जायेगा |

### संस्था का परिचय

सन 2000 में स्थापित, क्रिया एक नारीवादी मानव अधिकार संस्था है जो दिल्ली, भारत, में स्थित है। क्रिया महिलाओं और किशोरियों को मानव अधिकार की बात कहने, मांग करने और उनको प्राप्त करने के लिए सशक्त करती है। इसके अतिरिक्त, क्रिया मानव अधिकार आंदोलनों और नेटवर्क से जुड़े साथियों के साथ मिलकर, सभी के यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए कार्य करती है। क्रिया सामुदायिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक बदलाव के लिए पैरवी करती है और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है।

इस कार्यशाला का आयोजन ओक फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। क्रिया इस सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करती है।

## प्रतिभागी और चुनाव

वे सभी व्यक्ति जो खुद को महिला मानती हैं और जो भारत में नेतृत्व के भूमिका में गैर सरकारी संगठनों में या स्वतंत्र एक्टिविस्ट के रूप में महिला मुद्दों पर कार्य कर रही हैं, वह सभी आवेदन कर सकती हैं। कुल 30 प्रतिभागियों को आवेदन के आधार पर स्वीकार किया जायेगा। प्रतिभागियों को कार्यशाला स्थल पर पूरी अवधि के लिए रहना अनिवार्य है। सभी सहभागियों को :

- जेंडर, महिला अधिकार, विकास या युवा के मुद्दों पर कार्य का कम से कम २ साल का अनुभव या
- महिला अधिकार या महिला नेतृत्व की संस्था के साथ कार्य या
- किसी महिला मुद्दों से जुड़े संस्था का नेतृत्व या
- किसी महिला समूह के साथ या स्वतंत्र रूप से विकलांगता, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर या सेक्सवर्कर्स के अधिकार पर कार्य का अनुभव होना आवश्यक है ...

क्रिया सहभागियों के रहने व खाने का प्रबंध करेगी व आने जाने का टिकट (2nd A/C ट्रेन) का भुगतान भी आयोजक द्वारा किया जायेगा।

## तिथि और स्थान

नारीवादी नेतृत्व, आंदोलन निर्माण और अधिकार प्रशिक्षण 20-24 नवंबर, 2017, नई दिल्ली में आयोजित किया जायेगा।

## आवेदन

आवेदन पत्र हमें **21 अक्टूबर, 2017** तक या उससे पहले पहुँच जाने चाहिए, अतः निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल चुने हुए साथियों को चुनाव की सूचना 25 अक्टूबर तक भेजी जायेगी।

एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिये [यहाँ क्लिक करें](#)।

कृपया अपने आवेदन पत्र को [flmbari.hindi@creaworld.org](mailto:flmbari.hindi@creaworld.org) पर ई-मेल करें या पोस्ट करे इस पते पर :

क्रिया,

7 मथुरा रोड, जंगपुरा बी, नई दिल्ली 110014

फोन: +91-11-24377707, 24378700

टेली फेक्स: +91-11-24377708

[www.creaworld.org](http://www.creaworld.org)